

Date: February 12, 2025

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-I, Block-G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400051 Symbol- CAPINVIT **BSE Limited** 

Corporate Relationship Department Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai- 400001 Scrip Code: 544338

Subject: Newspaper advertisements for Notice of Postal Ballot of Capital Infra Trust ("CIT")

Dear Sir/ Madam.

Pursuant to Regulation 22 of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014 ("InvIT Regulations"), and the notifications, circulars and guidelines issued thereunder read with Master Circular No. SEBI/HO/DDHS-PoD-2/P/CIR/2024/44 dated November 13, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (the "SEBI Master Circular") and subject to other applicable laws and regulations, and our intimation dated February 11 2025, regarding the Notice of Postal Ballot of Capital Infra Trust, please find enclosed copies of the newspaper advertisements published today i.e., on February 12, 2025, confirming the dispatch of the Notice of Postal Ballot and other related information in the following newspapers:

- 1. Financial Express English
- 2. Jansatta Hindi

Kindly take the above information on your records.

The said notice have also been made available on the website of Capital Infra Trust i.e. <a href="https://capitalinfratrust.com/">https://capitalinfratrust.com/</a>

For Capital Infra Trust erstwhile National Infrastructure Trust (InvIT)

By Order of the Board
Gawar Investment Manager Private Limited (as the Investment Manager to InvIT)

Shubham Jain Company Secretary and Compliance Officer



## कैपिटल इंफ्रा ट्स्ट

(पहले नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के नाम से जाना जाता था) यूनिट नंबर 1401 -1403, 14वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेंडिसिटी, रोक्टर - 38, गुरुग्राम - 122001, हरियाणा फोन नंबर : 0124 - 4920139, ई-मेल : compliance@capitalinfratrust.com पंजीकरण संख्या : IN/InvIT/23-24/0029

### यूनिटधारकों को डाक मतपत्र की सूचना

एतदद्वारा यह सचना दी जाती है कि संशोधित सेबी (इफ्रास्टक्चर इन्वेस्टमेंट टस्ट) विनियम 2014 के विनियम 22 तथा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों और दिशा-निर्देशों (जिनमें वर्तमान में लागू कोई भी वैधानिक संशोधन या संशोधन या पनः अधिनियमन शामिल है) ("इन्विट विनियम") को सेबी द्वारा जारी दिनांक 13 नवंबर, 2024 के मास्टर परिपन्न संख्या SEBI/HO/DDHS-PoD-2/P/CIR/2024/44 ("सेबी मास्टर परिपन्न") के साथ पढ़ा जाए तथा अन्य लागु कानुनों और विनियमों के अधीन, इस डाक मतपत्र सुचना में निर्धारित संकल्प को कैंपिटल इंफ्रा ट्रस्ट के यूनिटधारकों ("यूनिटधारक", तथा ऐसे ट्रस्ट, "इन्विट" या "ट्रस्ट") द्वारा दूरस्थ रूप से डाक मतपत्र केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया ("रिमोट ई-वोटिंग") के मध्यम से पारित किया जाना प्रस्तावित है।

इसलिए, सभी यूनिटघारकों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि :

- डाक मतपत्र सचना ('सचना') मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट ('सीआईटी') के युनिटधारकों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया है, जिनके नाम नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') से प्राप्त लाभार्थी मालिकों की सूची में शुक्रवार, 07 फरवरी, 2025 ('कट-ऑफ तिथि") को कारोबारी घंटों की समाप्ति पर दिखाई दिए थे और जिन्होंने खिपाजटॉरी/ डिपाजिटोरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकत / अपडेट कर लिए हैं।
- डाक मतपत्र की सचना इनविट की वेबसाइट https://capitalinfratrust-com/ पर, नेशनल रटोंक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइटों के संबंधित अनुभाग: www-nseindia-com और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") : www-bseindia-com और रिमोट ई-वॉटिंग एजेंसी यानी मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ('केफिन') https://evoting-Kfintech-com की वेबसाइट पर भी डाली गई है।
- कट-ऑफ तिथि के अनुसार यूनिटधारक सुचना में निर्धारित संकल्प पर वोट करने के हकदार होंगे और जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के अनुसार यूनिटघारक नहीं है, उसे इस डाक मतपत्र सुचना को कंवल सुचना के उद्देश्य से लेना चाहिए। युनिट्यारकों के वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार सीआईटी की युनिट पूंजी की उनकी इकाइयों के अनुपात में होंगे।
- ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 12 फरवरी, 2025 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू होगी और गुरुवार, 13 मार्च, 2025 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) समाप्त होगी। इसके बाद ई-वोटिंग मॉड्यूल वोटिंग के लिए अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार युनिट्घारक द्वारा संकल्प(ऑ) पर वोट जालने के बाद, युनिटधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक बार युनिटघारक द्वारा प्रस्ताव पर वोट दिए जाने के बाद, युनिटघारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिमोट ई-बोटिंग के लिए विस्तुत प्रक्रिया और निर्देश नोटिस में
- निवेश प्रबंधक के निदेशक मंडल ने मेससे दीप्ति कलकर्णी (सर्टिफिकेट ऑफ प्रैविटस नंबर 22502) को, जनके स्थान पर मेसर्स एमएमजेबी एंड एसोसिएटस एलएलपी के पार्टनर्स, प्रैविटसिंग कंपनी संक्रेंटरीज, श्री ओमकार डिंडोरकर (सर्टिफिकेंट ऑफ प्रैविटस नंबर 24580) को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया के मध्यम से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए स्कृटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।
- डाक मतपत्र के परिणाम मतदान की अंतिम तिथि से दो कार्य दिवसों के भीतर घोषित किए जाएंगे, यानी मंगलवार, 18 मार्च, 2025 को या उससे पहले। स्क्रुटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ उक्त परिणाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेंड और बीएसई लिमिटेंड के पास जमा किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, परिणाम इनविट (InvIT) की वेबसाइट यानी https://capitalinfratrust-com और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट https://evoting-kfintech-com पर भी डाले जाएंगे।
- जिन यूनिटधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि वे डाक मतपत्र की सूचना में दी गई प्रक्रिया का पालन करके अपना ईमेल पता पंजीकृत कराएं, ताकि वे इनविट (InvIT) की ओर से निवेश प्रबंधक से वार्षिक रिपोर्ट, सचना, परिपत्र आदि सहित सभी संचार इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त कर सकें।
  - केएफआईएन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (https://evoting-kfintech-com) के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता परितका का संदर्भ ले सकते हैं या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए टोल-फ्री नंबर: 1800-309-4001, ई-मेल : evoting@kfintech-com पर संपर्क कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न और/या शिकायत के मामले में, सदस्य

कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट (इनविट) के लिए बोर्स के आदेश से गवार इन्वेस्टमेंट मैनेजर प्राइवेट लिमिटेड (इनविट के निवेश प्रबंधक के रूप में) हस्ता./-दिनांक : 11 फरवरी, 2025 शुभग जैन

स्थान : गुरुग्राम कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी टाटा कैपिटल लिमिटेड पंजीकृत पताः टॉवर ए, 11वीं मंजिल पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई, महाराष्ट्र-400013 📆 📆 🎵 शाखा पता: प्रथम एवं द्वितीय तल, एससीओ 243, सेक्टर 12, करनाल, हरियाणा - 132001

(प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(४) के तहत एवं निवम 9(1) के साथ पंडित) विनीय आरितचो के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिधम, 2002 के तहत अचल संपत्तिकों की बिक्ती हेतु ई-नीलामी बिक्ती सुचना, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) निवम, 2002 के निवम 8(6) के तहत एवं नियम १(1) के प्रावधान के साथ पठित। ऋण खाता संख्याः TCFLA0352000012233482: विकास ट्रेडिंग कंपनी

अवल गंपनि की बिक्ती हेन् बिक्ती सुवना

स्चित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर-वैंकिंग वित्त कंपनी है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत निगमित हैं, पंजीकृत कार्यालय पेनिनसुला विजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोक्षर परेल, मुंबई- 400013 में तथा शास्त्रा कार्यालय हरियाणा में अन्य("शाखा") पर है। दिनांक 24.11,2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (''टीसीएफएसएल'') एवं टाटा बलीनटेक कैपिटल लिमिटेड ("टीसीसीएल") को हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड (''टीसीएल'') को हरतांतरिती के रूप में व्यवस्था की योजना को विधियत मंजुरी दे दी है (''उक्त योजना''), इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हरसांतरक कंपनियां) अपने उपक्रम सहित 01.01.2024 से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, व्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभृतियों आदि के साथ वर्तमान संस्था के रूप में टीसीएल के साथ विलय हो गई हैं उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल हारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उसके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए गए और इस प्रकार टीसीएल उसके अनुसार [कर्जदारो/सह-कर्जदारों] से दावा करने का हकदार है।

एतहारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से नीचे लिखित कर्जदार/सह-कर्जदार को सुचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो टाटा कैपिटल लिमिटेड (प्रतिभृत लेनदार/टीसीएल) के पास बंधक है, जिसका कब्जा टाटा कैपिटल लिपिटेड (प्रतिभृत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, 25 मार्च, 2025 को "जहां है जैसा है", "जो है यही है", "जो कुछ भी है यही है" तथा "आश्रय रहित आधार" के आधार पर वेची जाएगी।

जबिक, कर्जदार एवं सह-कर्जदार/जमानती: (1) विकास ट्रेडिंग कंपनी अपने प्रोपसइटर के सम लाल करनाल रोड के माध्यम से, असंघ, करनाल -132039; (2) राम लाल, मकान नंबर 365, वार्ड - 3, असंध करनाल -132039: (3) वीना जिंदल, मकान नंबर 365, वार्ड - 3, असंध, करनाल -132039 से बकाया राशि रु. 66,15,512/- (रुपये छाछट लाख पंड़ह हजार पाँच सी बारह मात्र), ऋण खाता संख्या TCFLA0352000012233482 के तहत 10-फरवरी-2025 को प्रतिभृत ऋण की वसुली हेतु प्रतिभृत परिसंपत्ति की बिक्री की आएगी।

एतहारा सुचित किया जाता है कि बिक्री में किसी भी प्रकार के स्थगन/विराम की अनुपरिथति में उक्त संपत्ति को ई-नीलामी द्वारा 25 मार्च, 2025 को 02:00 चजे क्षप, को टीसीएल द्वारा बेचा जाएगा, जिसका शास्त्रा कार्यालय प्रथम एवं द्वितीय तल, एससीओ 243, सेक्टर 12, करनाल, हरियाणा - 132001 में है। संपत्ति की खरीद के लिए सीलबंद ई-नीलामी ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट के साथ टाटा कैपिटल लिमिटेड के

प्राधिकृत अधिकारी हारा उक्त 24 मार्च, 2025 को अपराह्न 05:00 बजे तक प्राप्त की जाएगी।

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	कब्जे का प्रकार रचनात्मक/ भौतिक	आरक्षित भूल्य (फ.)	जमा धरोहर सक्षि (स.)
वार्ड क्रमांक 6, वाका गाँव असंध में स्थित आवासीय संपत्ति, खेवट क्रमांक 1996 में शामिल भूमि का अविभाजित हिस्सा, खसरा क्रमांक 898 5/968, भूमि का हिस्सा 48 कनाल, 8 मरला यानि 5 मरला या 150 वर्ग गज। 23.11.2011 के बिक्री विलेख में अधिक विशेष रूप से वर्णित, वसीका क्रमांक 5494, सीमाएं: पूर्वः 47' साक्षी पत्नी परवीन कुमार; पश्चिमः 49' गली; उत्तरः 28'-9, पूनम पुत्र राम धारी; दक्षिणः	भौतिक	ह, 74,96,000/- (ऋषये चौहतर लाख खियानचे हजार मात्र)	म्. 7,49,600/- (रुपये सात लाख उनचास हजार छः सी भात्र)

विक्री हेतु रखी गई संपंत्रि का विवरण अनुसन्ती में है। कपर वर्णित प्रतिभूत संपंत्रि के अंदर या भीतर पड़ी चल वस्ताएं/घरेल सामान प्रतिभत संपधि के साथ विक्रों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं होंगे जब तक कि नीलामी विक्री सुचना में विशेष रूप से वर्णित न हो। यदि पूर्वोक्त देथ राशि, ख्वज और लागत (बिक्की की लागत सहित) 'प्राधिकृत अधिकारी' को सौंप दी जाती है या उसके संतोष के लिए सबूत दे दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण, ब्याज एवं लागत की राशि का भुगतान कर दिया गया है, तो बिद्धी रोक दी जाएगी। बिद्धी के समय, जनसामान्य को व्यक्तिगत रूप से अपनी निविदा प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हालांकि, इस बिक्री के संबंध में कोई कर्तव्य निभाने वाला कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, बेची गई संपत्ति में कोई भी हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बोली नहीं लगाएगा. अधिग्रहण नहीं करेगा या अधिग्रहण करने का प्रयास नहीं करेगा। विकी सरफैसी अधिनियम. 2002 के तहत निर्धारित नियमों/शर्ती के अधीन होगी।

ई-नीलामी https://BidDeal.in पोर्टल के माध्यम से 25 मार्च, 2025 को दोपहर 02:00 बजे से 03:00 बजे के बीच 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित होगी। संपत्ति की खरीद हेतु प्रस्तृत सभी बोलियों के साथ ऊपर डल्लिखित धरोहर राशि, ''टाटा कैपिटल लिभिटेड'' के पक्ष में लखनऊ में देथ डिमांड ढ्राफ्ट के माध्यम से संलग्न करना होगा। संपत्ति का निरीक्षण 15 मार्च, 2025 को सुबह 11:00 बजे से शाम 05:00 बजे के बीच किया जा

नोटः इच्छुक चोलीदाता टाटा कैपिटल लिमिटेड से मोबाइल +91 - 8691005238 / प्राधिकृत अधिकारी श्री अवनेंदर शर्मा; ईमेल आईडी: avnander.sharma@tatacapital.com एवं मोबाइल +91-86007451999 पर संपर्क कर सकते हैं।

बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शतों के लिए कृपथा प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट पर दिए गए लिंक अर्थात http://www.fatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcfsl/01st-E-Auction-Newspaper-Publication-TCFLA0352000012233482-Vikas-Trading-Co.pdf TCFLA03400QQ10927234.pdf का संदर्भ लें,

स्थानः करनाल (हरियाणा) हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी तिथि: 12-02-2025 टाटा कैपिटल लिमिटेड

# RACE ECO CHAIN LIMITED

Extract of Un-Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on December 31", 2024

Registered Office: Shop No. 37, Shanker Market, New Delhi, Central Delhi-110001 CIN: L37100DL1999PLC102506. Website: www.raceecochain.com, Email: cs@raceecochain.com

(Amount in Lacs except EPS) Quarter Quarter Nine Financial Ended Months Months Ended Ended Year Ended Ended Ended **Particulars** 31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024 Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Audited 16,841.51 | 10,628.99 | 7,268.41 | 36,114.92 26,231.27 34,748.13 Total income from operations Net Profit/ (Loss) for the period 237.99 77.10 72.01 346.55 233.50 272.90 (before tax Exceptional and/or Extraordinary items) 237.99 77.10 346.55 233.50 272.90 Net Profit / (Loss) for the period before tax. 72.01 (after Exceptional and/or Extraordinary Items Net Profit / (Loss) for the period after tax 177.48 72.75 59.00 260.58 171.73 154.70 (after Exceptional and/or Extraordinary items) 163.87 Total Comprehensive Income for the period 30.29 403.48 59.00 444.11 171.73 [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) ] 1,725.72 1,725.72 1,643.22 6 Paid up Equity Share Capital 1,725.72 1,643.22 1,643.22 Earning Per Share 0.42 The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and Nine Months ended on 31" December, 2024 filed with stock exchange under

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the website of BSE & NSE at www.bseindia.com, www.nseindia.com as well as on the Company's website at www.raceecochain.com. The Key Standalone Financial information for the Quarter Ended on 31" December, 2024 are given below:

S. NO.	Particulars	Quarter Ended 31.12.2024	Quarter Ended 30.09.2024	Quarter Ended 31.12.2023	Nine Months Ended 31.12.2024	Nine Months Ended 31.12.2023	Financial Year Ended 31.03.2024
1	Turnover	12,873.59	10,628.99	6,940.06	32,119.92	25,902.92	33,849.88
2	Profit before tax	184.83	78.64	53.02	320.76	225.18	270.10
3	Profit after tax	138,40	74.28	45.18	248.88	165.81	156.72
			11-500000		111111111111111111111111111111111111111		f the Board

For Race Eco Chain Limited Sd/-Sunil Kumar Malik Managing Director & Chairman (DIN: 00143453)

allndiaSheller इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए बिक्री सूचना **मार्केन Lown** पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट—15, छठा तल, सेक्टर—44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा—122002 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनयम, 2002 (इसमें आगे "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (इसमें

Place: Ghaziabad-UP

Dated: 11.02.2025

आगे "नियमावली" कही गयी है) के नियम 9(1) के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु नीलामी बिक्री सूचना। एतदृद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह–कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (इसमें आगे प्रत्याभूत लेनदार कही गई है) के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा प्रतिभृत लेनदार, पंजीकृत कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 15, छठा तल, इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर—44, गुरूग्राम, हरियाणा—122002 के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह—कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की क्सुली के लिए नीचे वर्णित तिथि को "जैसी हैं जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। यह बिक्री प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे वर्णित स्थान पर की जाएंगी। कब्जा की तिथि और प्रकार सुरक्षित मूल्य धारा 13(2) के तहत मांग सूचना सम्पत्ति के निरीक्षण की ऋण खाता संख्या/

एपी नंबर और कर्जदार(रों) की तिथि और राशि तिथि एवं समय (रूपये पांच लाख बासठ 25-02-2025 (निरीक्षण का समय : पूर्वा / सह— कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) 28-10-2024 13-12-2023 तथा हजार मात्र) 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक तिथि तक कुल बकाया राशि 6,83,895 / - (रुपये छह लाख ईएमडी जमा की अंतिम तिथि LASRCLLONS000005036869 र्छ 8.33.145 ∕ − तिरासी हजार आठ सौ धरोहर राशि 26-02-2025 04-11-2024 तक /AP-10076354 पिच्यानवे मात्र) जमा (ईएमडी) बोली वृद्धि राशि नीलामी की तिथि एवं समय 27-02-2025 श्रीमती जसविंदर कौर रू 56 200 / − (नीलामी समय : पूर्वा 10.00 बजे से अप 05.00 बजे तक) 10.000 /-**अचल सम्पत्ति / प्रतिभृत आस्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड :** पट्टा नंबर 95, बही नंबर 451, वार्ड नंबर 12, माटिली राथन 15 एफ श्रीगंगानगर, राजस्थान

बीकानेर क्षेत्रफल 3970 वर्ग फीट, चौहददी :- पूरब : सुल्तान राम, पश्चिम : रास्ता, उत्तर : मलक सिंह, दक्षिण : खाली प्लॉट, गेट **ईएमडी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान :** नंबर 1, प्रथम तल, ब्लॉक जी, गुरुद्वारा रोड, निकट नानक दरबार, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, 6 जैड, राजस्थान–335001 भुगतान की विधि : सभी भुगतान इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / आरटीजीएस / एनईएफटी द्वारा करना होगा।

	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की		सुरक्षित मूल्य	सम्पत्ति के निरीक्षण की
एपी नंबर और कर्जदार(रों)	तिथि और राशि	भौतिक कब्जा	रू. 3,79,100 ∕ —	तिथि एवं समय
/सह— कर्जदार(रों)/	14-10-2023 तथा रु. 6,26,327/-	26-10-2024	(रूपये तीन लाख उनासी	25-02-2025 (निरीक्षण का समय : पूर्वा
गारंटर(रों) का नाम	(रुपये छह लाख छब्बीस हजार तीन	तिथि तक कुल बकाया राशि	हजार एक सौ मात्र)	10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक ईएमडी जमा की अंतिम तिथि
HLSRCHLONS0000050	सौ सत्ताईस मात्र)	₹5. 7,78,520 / —	धरोहर राशि जमा	26-02-2025
35370/AP-10072427 श्रीमती बंतो बाई	बोली वृद्धि राशि :	04—11—2024 तक	(ईएमडी)	
श्री बलवंत सिंह	10,000 /—		र्फ. 37,910 ∕ —	नीलामी की तिथि एवं समय 27—02—2025 (नीलामी समय : पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05.00 बजे तक)
ALL ACIAN ING		3,	li :	1111 . 411. 10.00 101 (1 011. 00.00 401 (147)

अचल सम्पत्ति/प्रतिभूत आस्ति का वर्णन: सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड: पट्टा नंबर 21, बही नंबर 433, वार्ड नंबर 10, 1 सी बड़ी जीपी ओरकी श्रीगंगानगर, राजस्थान—335901, चौहददी :- पूरव : लखमीर सिंह / जगतार सिंह, पश्चिम : राम सिंह / मुख्तयार सिंह, उत्तर : गली (आम रास्ता), दक्षिण : गली (आम रास्ता) **ईएमडी जमा करने का स्थान तथा नीलामी का स्थान :** नंबर 1, प्रथम तल, ब्लॉक जी, गुरूद्वारा रोड, निकट नानक दरबार, जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर, 6 जैड. राजस्थान-335001 भगतान की विधि: सभी भूगतान इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा करना होगा।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट www.indiashelter.in देखें अथवा प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें — विनय राणा (7988605030) इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) तिथि: - 12-02-2025, स्थान: राजस्थान

# क्लोरो अल्कली लिमिटेड सीआईएन नंबर: L24117RJ1979PLC002099

पंजी. कार्यालयः एसपी-460, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) - 301 030 कॉर्पोरेट कार्यालयः ए-281, पहली मंजिल, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024 फोनः +91-11-40239034, ई-मेलः secretarial@lordschloro.com वेबसाइटः lordschloro.com;

il.	₹	ामाप्त तिमार	fi	नौ महीने	समाप्त वर्ष	
	दिसम्बर 31 2024 अलेखापरीक्षित	सितम्बर 30 2024 अलेखापरीक्षित	दिसम्बर 31 2023 अलेखापरीक्षित	दिसम्बर 31 2024 अलेखापरीक्षत	दिसम्बर 31 2023 अलेखापरीक्षित	मार्च 31 2024 लेखापरीक्षित
परिचालन से कुल आय	6,551,76	6,085,85	5,852.95	19,190.82	16,103.64	22,403.90
अवधि के लिए शुद्ध लाम (असाधारण मदौ और कर पूर्व)	200.60	54.12	(426.99)	458.94	(745.50)	(740.33
अवधि के लिए कर पूर्व शुद्ध लाम (असाधारण और/या असामान्य मदों के बाद)	200.60	54.12	(426.99)	458.94	(745.50)	(740.33
अवधि के लिए कर के बाद शुद्ध लाम (असाधारण और/ या असामान्य मदों के बाद)	126.64	35.86	(320.18)	357.76	(474.05)	(479.50
अवधि के लिए कुल व्यापक जाय (जिसमें अवधि के लिए लाम/(डामि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) शामिल हैं)	126.37	35.59	(323.58)	356.96	(484.22)	(480.60
प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रूपये 10/ – है)	2,515,39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39	2,515.39
अन्य इक्विटी जिसमें पुन:मूल्याकन आरक्षित शामिल नहीं हैं		\$3	· ·		<b>\$</b> 3	13,933.18
प्रति शेयर आय (प्रति रूपये 10 / –) (जारी परिचालनों के लिए)					13,91,00-0	
अ) मूल	0.50	0.14	(1.29)	1.42	(1.93)	(1.91
ब) परिसमाप्त	0.49	0.14	(1.29)	1.37	(1.93)	(1.91

उपरोक्त अलखापराक्षित वित्तीय परिणामा का समक्षा और सुझाव लखा सामीत द्वारा किए गए हे और आग 10 फरवरी 2025 का आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में उन पर विचार करने के बाद अनुमोदित किया गया है। ये परिणाम सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33, यथासंशोधित, के अनुरूप निर्मित किए गये हैं। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त नौ महीने की अवधि के लिए इन परिणामों की सीमित समीक्षा की है।

उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस ) के सिद्धांतों और प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट कंपनी (भारत लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसचित किया गया है।

भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 108 "ऑपरेटिंग सेगमेंट"के अनुसार, कंपनी का व्यवसाय एक ही व्यवसाय सेगमेंट में आता है, अर्थात क्लोरो अल्कली सेक्टर / कास्टिक सोडा का उत्पादन।

कराधान का प्रावधान प्रभावी आयकर दरों पर किया गया है। पिछली अवधि के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत / पुनः व्यवस्थित और / या पुनर्गठित किया गया है।

दिनांक: 10 फरवरी, 2025

स्थानः नई दिल्ली

NIMBUS

डाइल्युटिड :

तिथि : 10 फरवरी, 2024

स्थान : नई दिल्ली



कृते लॉर्ड्स क्लोरो अल्कली लिमिटेड अजय विर्मानी प्रबंध निदेशक DIN: 00758726

# MUTHOOT FINCORP LTD. | सोने की नीलामी सूचना

Regd. Office: Muthoot Centre, TC No 27/3022, Punnen Road, Thiruvananthapuram, Kerala, India - 695001.

PATNA DISTRICT - DANAPUR-PATNA: 428900181, 428900289, 428900710, 428900809, 428900932, 428900936, 428900960,

CIN: U65929KL1997PLC011518, Ph: +91 471 4911400, 2331427 सभी सम्बद्ध व्यक्तियों की सुवना के लिए एतद्वारा सुवना दी जाती है कि 31.03.2024 & MSGL, SPL-16. One plus, Guide Prepaid, Super value, ADGL and all othe 5 months tenure Gold loans up to 30.06,2024 and MSGB, SME Suvarna & EMI due up to 31.12,2024 तक की अवधि के लिए कम्पनी की नीचे कथिल शासाओं मे गिरवी रखें सोने के गहनें जिन्हें छुड़ाने का समय बीत चुका है तथा जिन्हें बार-बार सुचना दिए जाने पर भी अब तक छुड़ाया नहीं गया है उनकी नीतामी 28.02.2025 को 10.00 बजे से

428900963, 428900965, 428900976, 428900980, 428900992, 428901016, 428901031, 428901051, 428901055, 428901061, 428901072, 42890108 F1009 F1099 F1532 F1818 F1824 F1958 F1969 F1973 F1990 F2009 F2017 F3637 F3843 F4277 F931 SAMASTIPUR DISTRICT - SAMASTIPUR 432800152, 432800226, 432800344, 432800359, 432800393, 432800540, 432800556, 432800564, 432800577, 432800591, 432800605, F2311, F2340, F2347, WEST CHAMPARAN DISTRICT - BETTIAH: 4395000003, 4395000007, 4395000009, 4395000010, 4395000017 4395000019, 4395000020, 4395000026, 4395000027, 4395000028, 4395000030, 4395000037, 4395000043, 4395000045, 4395000047, 4395000048 4395000051, 4395000055, 4395000058, 4395000059, 4395000060, 4395000070, 4395000071, 4395000081, 4395000092, 4395000094, 4395000096 नीलामी अपनी - अपनी शाखाओं पर आयोजित की जाएगी। कृपया घ्यान दें कि यदि नीलामी किसी कारणवश उसी दिन पूरी न हो पाईतो नीलामी 12.03.2025 को सुबह 10.00 बजे

BETTIAH: Muthoot FinCorp Ltd., First Floor, Door No. 02, Ward No. 24 Hajarimal Dharamshala Road, Bettiah Post, Paschim Champaran District. Bihar 845438 PATNA CITY-BIHAR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No 1, Salabh Complex, Ashok Raipath Road, Guijarbagh, Opp Patna City Court, Patna, Bihar - 800007, SAMASTIPUR: Muthoot FinCorp Ltd., Ground Floor, Door No 1, Ward No 18, Arya Samaj Road, Near Shani Mandir, Samastipur District, Bihar - 848101. SIWAN: Muthoot FinCorp Ltd., Upper Ground Floor, Door No:1, Babuniya More, Rajiv Nagar, Besides Tanishq Showroom, Swanswan District, Bihar - 841226, पर आयोजित की जाएगी। निविदाकर्ताओं से निवेदन है कि वे फोटो पहचान – पत्र, PAN कार्ड प्रस्तुत करें। सफल निविदाकर्ताओं को पैसा मुत्तूट फ़िनकॉर्प लिमिटेड RTGS द्वारा ट्रांसफर करना होगा ।

# सिरका पेंटस इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L24219DL2006PLC145092 **पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय:** जी–82, कीर्ति नगर, नई दिल्ली–110015, **दूरभाष:** +91-11-42083083

वैबसाइट: https://sircapaints.com/ ई-मेल: info@sircapaints.com 31 दिसम्बर 2024 को समाप्त तीसरी तिमाही एवं नौ माह हेत् अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के निष्कर्ष

(आंकडे लाख में ईपीएस अपेक्षा)

विवरण 豖. स्टैंडअलोन समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त वर्ष 31.12.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2023 | 31.12.2024 | 31.12.2023 | 31.03.2024 (अलेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित (अलेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) 1. प्रचालनों से कुल आय 9,061.40 10,633.83 7,412.25 27,705.29 23,335.92 31,808.03 2. अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर, 1,553.56 1,796.97 1,382.78 4,743.12 6,906.56 5,227.80 अपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों से पूर्व ) 3. कर पूर्व अवधि हेतू निवल लाभ / 5,227.80 6,906.56 1,553.56 1,796.97 1,382.78 4,743.12 (हानि) (अपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) कर पश्चात अवधि हेत् निवल लाभ / 1,328.37 1,051.24 3,494.82 3,892.54 5,143.72 1,145.62 (हानि) (अपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त) 5. अवधि हेतू कुल व्यापक आय 1,145.62 1,328.37 1,051.24 3,494.82 3,892.54 5,141.27 6. चकता समता अंश पंजी (रु 10/- प्रत्येक 5,480.88 5,480.88 5,480.88 5,480.88 5,480.88 5,480.88 का अंकित मूल्य) 7. अन्य समता 28,063.62 26,918.00 24,142.20 28,063.62 24,142.20 25,390.93 8. आय प्रति अंश (रु 10/- प्रत्येक का) 1. मूल (अवार्षिकीकृत) 2.09 2.42 1.92 6.38 7.10 2. तनुकृत (अवार्षिकीकृत) 2.09 2.42 1.92 6.38 7.10

9.38 9.38

	35 (				****		* * * *		
					(आंकड़े ल	गख में ईपी	एस अपेक्षा)		
큙.	विवरण	समेकित							
₹і.		₹	ममाप्त तिमाई	ी	समाप्त न	समाप्त वर्ष			
		31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024		
		(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(अलेखापरीक्षित)	(लेखापरीक्षित)		
1.	प्रचालनों से कुल आय	9,061.40	10,633.83	7,412.25	27,705.29	23,335.92	31,808.03		
2.	अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, अपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व )	1,553.51	1,796.82	1,382.71	4,742.88	5,227.32	6,906.08		
3.	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/ (हानि) (अपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,553.51	1,796.82	1,382.71	4,742.88	5,227.32	6,906.08		
4.	कर पश्चात् अवधि हेतु निवल लाभ/ (हानि) (अपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)	1,145.58	1,328.26	1,051.20	3,494.64	3,892.18	5,143.36		
5.	अवधि हेतु कुल व्यापक आय	1,145.58	1,328.26	1,051.20	3,494.64	3,892.18	5,140.92		
6.	समता अंश पूंजी	5,480.88	5,480.88	5,480.88	5,480.88	5,480.88	5,480.88		
7.	अन्य समता	28,059.99	26,914.41	24,138.75	28,059.99	24,138.75	25,387.49		
8.	आय प्रति अंश (रु 10/- प्रत्येक का)								
	1. मूल (अवार्षिकीकृत)	2.09	2.42	1.92	6.38	7.10	9.38		
	2. तनुकृत (अवार्षिकीकृत)	2.09	2.42	1.92	6.38	7.10	9.38		
_									

1. उपरोक्त सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास दर्ज स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप विवरण का एक निष्कर्ष है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वैबसाइट (www.sircapaints.com) और स्टॉक एक्सचेंजों (www.nseindia.com & www.bseindia.com) की वैबसाइटों पर उपलब्ध हैं। नीचे दिये गए क्युआर कोड़ को स्कैन करके भी इसे प्राप्त किया जा सकता है।

उपरोक्त परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और 11 फरवरी, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

कृते सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड संजय अग्रवाल अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान: दिल्ली

दिनांक: 11/02/2025

(डीआईएन: 01302479)

# निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 1001–1006, 10वीं मंजिल, नारायण मंजिल, 23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001 REALTY फोन: 011-42878900, ईमेल: nimbusindialtd@gmail.com, वेबसाईट: www.nimbusprojectsltd.com, CIN: L74899DL1993PLC055470

31 दिसम्बर, 2024 को समाप्त तिमाही व नौमाही स्टैंडअेंलोन एवं कन्सोलिडेटेड अन—अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सार (र लाख में) कन्सोलिडेटेड स्टैंडअंलोन विवरण समाप्त तिमाही समाप्त तिमाही समाप्त नौमाही समाप्त नौमाही समाप्त वर्ष समाप्त वर्ष 30.09.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024 31.12.2024 31.12.2023 31.12.2024 (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अन-अंकेक्षित) (अंकेक्षित) परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) 55.94 58.18 2.06 148.63 97.32 586.98 55.94 58.18 2.06 148.63 97.32 586.98 अवधि का शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर पूर्व (1201.88)2701.04 (318.03)325.63 (461.73)111.88 (1201.96)2700.81 (318.53)325.31 (461.76)111.38 तथा असाधारण मदों के उपरान्त) अवधि का कर के बाद शद्ध लाभ/ (हानि) (1188.96)2315.82 (313.75)(45.88)(501.34)1.44 (1189.04)2315.59 (314.25)(46.20)(501.38)0.94 (असाधारण मदों के उपरान्त) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के (1188.64)2315.95 (313.71)(46.16)(502.12)0.90 (1188.72)2315.67 (314.21)(46.58)(502.04)0.52 लिए लाभ/ (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद) समता अंश पूंजी 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 1083.80 कोष (पूर्नमूल्याकंन कोष हटाकर, पूर्व लेखा (-)2652.86(-)2653.47वर्ष के बैंलेंसशीट के अनुसार) (As on (As on 31.03.2024) 31,03.2024) आय प्रति अंश (अंकित मृत्य ₹ 10/- प्रत्येक) (10.97)21.37 (2.89)(0.42)(4.63)(10.97)21.37 (2.90)(0.43)(4.63)0.01 0.01

टिप्पणीः उपरोक्त, सेबी (सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण आवश्कताएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल तिमाही व नौमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का उद्धरण है। समाप्त तिमाही व नौमाही के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटः www.bseindia.com तथा कंपनी के वेबसाइट : www.nimbusprojectsltd.com पर उपलब्ध है और नीचे दिये क्यूआर कोड को स्कैन करके भी देखा जा सकता है।

(4.63)

0.01

(0.42)

Scan the QR Code to view the Results on the website of BSE Limited

21.37

निम्बस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लिए हस्ताक्षर बिपिन अग्रवाल (प्रबन्ध निदेशक) डीआईएनः 00001276



21.37

(10.97)

Scan the QR Code to view the Results on the website of the Company

(2.89)



(10.97)

(2.90)

(0.43)

Lucknow

(4.63)

बोर्ड की ओर से

0.01

www.readwhere.com

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM



CAPITAL Infra Trust (formerly known as National Infrastructure Trust) Unit No. 1401 -1403, 14th Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector - 38, Gurugram - 122001, Haryana Phone Number: 0124 - 4920139, E-mail: compliance@capitalinfratrust.com

Registration No.: IN/InvIT/23-24/0029 NOTICE OF POSTAL BALLOT TO THE UNITHOLDERS

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 22 of the SEBI (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, as amended and the notifications, circulars and guidelines issued thereunder (including any statutory modification(s) or amendment(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) (the "InvIT Regulations") read with Master Circular No. SEBI/HO/DDHS-PoD-2/P/CIR/2024/44 dated November 13, 2024 issued by the SEBI (the "SEBI Master Circular") and subject to other applicable laws and regulations, the resolution as set out in this Postal Ballot Notice are proposed to be passed by the Unitholders of Capital Infra Trust (the "Unitholders", and such trust, "InvIT" or "Trust") through Postal Ballot by remote e-voting process only ("remote e-voting"). All unitholders are, therefore, informed to note that:

Postal Ballot Notice ("Notice"), has been dispatched on Tuesday, February 11, 2025

- by electronic means to Unitholders of Capital Infra Trust ("CIT") whose names appeared in the List of Beneficial Owners received from National Securities Depository Limited ("NSDL") and Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") as on the close of business hours on Friday, February 07, 2025 ("cut-off date") and who have registered/ updated their email addresses with the depositories/depository participants. The Notice of Postal Ballot has also been placed on the website of the InvIT at
- https://capitalinfratrust.com/., the relevant section of websites of The National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com and the BSE limited ("BSE"): www.bseindia.com and on the website of the remote e-voting agency viz., M/s KFin Technologies Limited ("KFIN"): https://evoting.Kfintech.com
- Unitholders as on the cut-off date would be entitled to vote on the resolution set out in the Notice and a person who is not a Unitholder as on the cut off date should treat this Postal Ballot Notice for information purposes only. Voting rights of Unitholders shall be in proportion to their Units of the Unit capital of CIT as on cut-off date.
- The e-voting period commences on Wednesday, February 12, 2025, from 9.00 A.M. (IST) and end on Thursday, March 13, 2025, at 5:00 P.M. (IST). The e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on the resolution(s) is cast by the Unitholder, the Unitholder shall not be allowed to change it subsequently. Once the vote on the resolution is cast by the Unitholder, the Unitholder shall not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure and instructions for remote e-voting are mentioned in the Notice.
- The Board of Directors of Investment Manager has appointed M/s Deepti Kulkami (Certificate of Practice No. 22502), failing her Mr. Omkar Dindorkar (Certificate of Practice No. 24580), Partners of M/s. MMJB & Associates LLP, Practicing Company Secretaries as the Scrutinizer, for conducting the Postal Ballot through remote e-voting process in a fair and transparent manner.
- The results of Postal Ballot shall be announced within two working days from last date of voting, i.e. on or before Tuesday, March 18, 2025. The said results along with the Scrutinizer's report would be submitted with the National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, Additionally, the results would also be placed on the website of InvIT i.e., https://capitalinfratrust.com and on the website of remote e-voting agency at https://evoting.kfintech.com.
- Unitholders who have not registered their email address so far are requested to register their email address by following the procedure given in the said Notice of the Postal Ballot for receiving all communication including annual reports, notices, circulars etc. from the Investment Manager, on behalf of InvIT, electronically,
- In case of any query and/or grievance, in respect of remote e-Voting, Members may refer to the Help & Frequently Asked Questions (FAQs) and e-Voting user manual available at the download section of KFIN Technologies Limited (https://evoting.kfintech.com) or contact Toll-free No's.: 1800-309-4001, E-mail: evoting@kfintech.com, for any further clarifications.

**Particulars** 

(before tax Exceptional and/or Extraordinary items)

[Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other

**Particulars** 

**Particulars** 

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the

Net Profit / (Loss) for the period before tax

Net Profit / (Loss) for the period after tax

Comprehensive Income (after tax) ]

Turnover

3 Profit after tax

Profit before tax

Total Income from Operations

Other Comprehensive Income

Balance Sheet of Mar 31, 2024)

Earnings per share of Rs.10/- each

CMD1/44/2019 dated March 29, 2019.

3. Tax expenses include current tax and deferred tax.

(for continuing and discontinued operations)

(after tax)]

(a) Basic (b) Diluted

NOTES:

Equity Share Capital

Net Profit / (Loss) for the period

(before lax, exceptional and/or extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

\*Paid up Equity Share Capital

Earning Per Share

NO.

Place: Ghaziabad-UP

Dated: 11.02.2025

S.

No.

2

(after Exceptional and/or Extraordinary items

(after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income for the period

Total income from operations

Net Profit/ (Loss) for the period

For Capital Infra Trust (InvIT) By Order of the Board Gawar Investment Manager Private Limited (as the Investment Manager to InvIT)

Date: February 11, 2025 Place: Gurugram

NO.

Company Secretary and Compliance Officer

Shubham Jain

RACE ECO CHAIN LIMITED

Registered Office: Shop No. 37, Shanker Market, New Delhi, Central Delhi-110001

CIN: L37100DL1999PLC102506, Website: www.raceecochain.com, Email: cs@raceecochain.com

Extract of Un-Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended on December 31", 2024

Quarter

Ended

237.99

237.99

177,48

30.29

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on

Note: 1) The above is an extract of the detailed format of result for Quarter and Nine Months ended on 31" December, 2024 filed with stock exchange under

the website of BSE & NSE at www.bseindia.com, www.nseindia.com as well as on the Company's website at www.raceecochain.com.

Quarter

Ended

138.40

KİNGFA

**KINGFA SCIENCE & TECHNOLOGY (INDIA) LIMITED** CIN: L25209TN1983PLC010438 Read, Office: Dhun Building, III Floor, 827, Anna Salai, Chennai - 600 002. Phone: 044 - 28521736 | Fax: 044 - 28520420 | E-mail: cs@kingfaindia.com | Website: www.kingfaindia.com

Extract of Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2024

2) The Key Standalone Financial information for the Quarter Ended on 31" December, 2024 are given below:

Quarter

Ended

Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited Un-audited

72.01

72.01

59.00

59.00

1,643.22

Quarter

Ended

0.36

Nine

Months

Ended

7,268.41 36,114.92 26,231.27

346,55

346.55

260.58

444.11

Months

Ended

320.76

248.88

Quarter

ended

30.09.2024

(Unaudited)

41.937.07

5,018.90

5,018.90

3,725.77

3,725.77

1.211.05

30.76

30.76

Quarter

ended

31.12.2024

(Unaudited)

44.511.17

4,912.57

4,912.57

3,462.58

3,462.58

1,211.05

28.59

28.59

6,940.06 32,119.92 25,902.92 33,849.88

Managing Director & Chairman (DIN: 00143453)

31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024

53.02

45.18

31.12.2024 30.09.2024 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 31.03.2024

Quarter

Ended

77.10

72.75

403.48

0.42

Quarter

Ended

10,628.99

16.841.51 10.628.99



Registered Office: Servey No. 324 357 358, Kadi, Thol Road, Borisana, Kadi, Mahesana - 382715, Gujarat, Bharat. Telephone: +91-6358747514

AXITA COTTON Email: cs@axitacotton.com Website: www.axitacotton.com REGULATION 47(1)(b) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015 EXTRACT OF CONSOLIDATED UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON

**DECEMBER 31, 2024** 


	Qu	Quarter ended on			Nine Months ended on		
Particulars	31.12.2024	30.09.2024	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2023	31.03.2024	
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	Audited	
Total Income from Operations (net)	22,902.55	12,991.28	-	51,390.74	-	-	
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,							
Exceptional and/or extraordinary items)	(222.12)	32.65	-	295.36	-	-	
Net Profit / (Loss) for the period before tax							
(after Exceptional and/or extraordinary items)	(151.86)	32.65	-	365.52	-	-	
Net Profit / (Loss) for the period after tax							
(after Exceptional and/or extraordinary items)	(123.64)	44.37	-	263.63	-	-	
Total Comprehensive Income for the period							
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax)							
and Other Comprehensive Income (after tax)]	(123.21)	44.12	-	253.68	-	-	
Equity Share Capital	3477.73	3477.73	-	3,477.73	-	-	
Face value of equity share capital (Per Share)	1	1	-	1	-	-	
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown							
in the Audited Balance Sheet of the previous year.	-	-	-	-	-	-	
Earnings Per Share (of Rs. 1/- each)							
(for continuing and discontinued operations)							
(not annualised)							
Basic Earnings / (loss) Rs.	(0.04)	0.01	-	0.07		-	
Diluted Earnings / (loss) Rs.	(0.04)	0.01	-	0.07			
EXTRACT OF STANDALONE UN-AUDITED FINA	ANCIAL RESU	JLTS FOR TH	IE QUARTER	AND NINE M	ONTHS END	ED ON	

DECEMBED 21 202/

DECEMBER 31, 2024 (Rs. in Lakh except EPS)								
	Qu	arter ended	on	Nine Month	Year ended			
Particulars	31.12.2024	30.09.2024			31.12.2023			
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	Audited		
Total Income from Operations (net)	22,902.55	12,991.28	26,619.21	51,390.74	88,380.09	1,10,438.91		
Net Profit / (Loss) for the period								
(before Tax, Exceptional and/or extraordinary items)	(219.37)	64.21	422.64	341.19	2,061.22	2,730.20		
Net Profit / (Loss) for the period								
(after tax, other Comprehensive Income)	(121.60)	62.40	327.65	285.09	1,557.17	2,057.99		
EBDITA	(178.23)	106.73	464.01	502.44	2,184.79	2,936.07		
Note: -								

- The above of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results of the Company for the quarter and nine months ended on December 31, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and then approved by Board of Directors of the Company at its Meeting held on Monday, February 10, 2025. The Statutory Auditors have reviewed these financials results pursuant to regulations 33 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements.) Regulation, 2015 as amended.
- 2. The figures of the previous periods have been regrouped / rearranged / and / or recast wherever found necessary to make them
- 3. The above financial is an extract of the detailed format of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange the BSE Limited and National Stock Exchange Limited. The full format of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results is available on the BSE Limited website at www.bseindia.com, National Stock Exchange Limited website at www.nseindia.com and on the website of the Company at www.axitacotton.com. For, Axita Cotton Limited

Nitinbhai Govindbhai Patel Place: Kadi **Chairman Cum Managing Director** Date: February 10, 2025 DIN: 06626646



CIN: L27101WB1985PLC039503 Regd. Office: 'Ideal Centre', 4th Floor, 9 AJC Bose Road, Kolkata - 700 017 E-mail: office@maithanalloys.com; Website: www.maithanalloys.com Phone No.: 033-4063-2393:

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Board of Directors of the Company has fixed Wednesday, 19th February, 2025 as the Record Date for the purpose of payment of Interim Dividend of ₹ 3/- (Rupees Three only) per equity share of ₹10/- each (i.e. @30%) for the Financial Year 2024-2025 as declared by the Board of Directors in their meeting held on 11th February, 2025. The Interim Dividend will be paid to those Members whose name appear in the Company's Register of Members or to those persons whose name will be furnished as the Beneficial Owner by National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on Wednesday, 19th February, 2025 being record date fixed for the purpose. Pursuant to the applicable provisions of the Income Tax Act, 1961 read with rules framed

thereunder, (as applicable) dividend paid or distributed by the Company is taxable in the hands of the shareholders and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates from the dividend to be paid to shareholders. The rate of TDS would vary depending on the residential status as well as category of the shareholders, documents submitted by them and accepted by the Company. Scanned copies of documents and/or any other communication in connection with TDS are

required to be sent via registered e-mail ID of shareholders only to e-mail IDs mdpldc@yahoo.com with copy to rajesh@maithanalloys.com on or before Wednesday, 19th February, 2025. Shareholders are requested to consult with their tax advisors for the tax provisions that may be applicable to them. NO COMMUNICATION ON THE TAX DETERMINATION / DEDUCTION SHALL BE ENTERTAINED AFTER 19TH FEBRUARY, 2025.

Please note that the payment of Interim Dividend shall be made on or after Monday. 24th February, 2025. For Maithan Alloys Limited

Rajesh K. Shah Place: Kolkata Company Secretary Date: 11.02.2025

#### **Morn Media Limited** Regd. Office:- Jagran Building, 2, Sarvodaya Nagar, Kanpur - 208 005

CIN:- L22121UP1983PLC006177 ISIN:- INE343T01016 Tel.No:- 0512-2216161, E-mail:- mommedialimited@hotmail.com Website:- www.mommedia.com Extract of Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2024

Quarter Ended Nice Norths Exced Quarter Ended **Particulars** 31.12.2024 31.12.2024 31.12.2023 Unaudited Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional (0.69)(1.35)(1.08)and/or Extraordinary items) (0.69)Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after (1.35)(1.08)Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after (0.55)(1.29)(0.85)Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising (0.55)(1.29)(0.85)Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Equity Share Capital (Face value Rs. 10 per share) 50.00 50.00 50.00 Reserves (excluding revaluation reserve) 72.37 72:37 73.13 Earnings Per Share (Face value of Rs. 10/- each) (not annualized) (in Rs.) - Basic  $\{0.26\}$ (0.17)(0.11)

- Diluted

The above is an extract of the detailed format of half year ended September 30, 2024. Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations; 2015. The full format of Quarterly and half yearly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange www.msei.in and also available on the Company's website www.mornmedia.com. . The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their

meeting held on February 11, 2025.

Date: February 11, 2025

Place: Kanpur

Scan QR Code for complete Financial Results

For Morn Media Limited Pramod Kumar Nigam Director DIN-07575887

(Rs. in lakhs except EPS)

By the Order of the Board

(Amount Rs. in Lakhs, except per share data)

(Amount in Lacs except EPS)

Months

Ended

233.50

233.50

171.73

171.73

Nine

Months

Ended

225.18

165.81

For Race Eco Chain Limited Sd/-

By order of the Board

Sunil Kumar Malik

(Rs. in Lakhs)

Year

ended

31.03.2024

(Audited)

149.076.42

16,419.72

16,419.72

12,252.25

12,258.36

1.211.05

57,646.54

101.17

101.17

6.11

Financial

Year

Ended

Audited

34,748.13

272.90

272.90

154.70

163.87

**Financial** 

Year

Ended

156.72

#### **CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED** (CIN: L01110GJ1996PLC029329)

Regd. Off.: 330, TRIVIA Complex, Natubhai Circle, Racecourse, Vadodara – 390007

(Rs. in Lakh except EPS)

Email: girishshah@chemcrux.com Ph.: 0265-2984803/2988903 Website: www.chemcrux.com EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

**QUARTER AND NINE-MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2024** 

0.89

0.77

1.80

2.51

Consolidated **Standalone Quarter Ended Quarter Ended** Nine-months ended Year Ended Nine-months ended Year Ended **Particulars** 31/12/2024 30/09/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/03/2024 30/12/2024 30/09/2024 31/12/2023 31/12/2024 31/12/2023 31/03/2024 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Unaudited) (Unaudited) (Audited) 2002.91 1.801.52 2237.06 5554.06 7.980.07 2002.91 1,801.52 2237.06 5554.06 6091.69 7,980.07 Total income from operations (net) 6091.69 Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax. 178.30 155.61 419.36 510.02 913.77 1,143.15 177.80 155.61 419.36 510.02 913.77 1,143.15 Exceptional and/or extraordinary items) 155.61 155.61 178.30 419.36 510.02 1,143.15 178.30 419.36 510.02 913.77 913.77 1,143.15 Net Profit' (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or extraordinary items) 132.34 114.75 114.75 266.14 654.49 844.43 266.14 371.41 654.49 844.43 Net Profit/ (Loss) for the period after tax 132.84 371.41 (after Exceptional and/or extraordinary items) 144.30 137.13 296.96 441.98 706.53 910.70 143.80 137.13 296.96 441.98 706.53 910.70 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss)for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after 6. Paid up Equity Share Capital (Face Value 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 1480.88 Rs 10 each) Other equity excluding revaluation reserve 5.744.97 5,744.97 8. Earnings per share (of Rs. 10/- each) 0.90 0.77 1.80 2.51 4.42 5.70 0.89 0.77 1.80 2.51 4.42 5.70

1. Basic (in Rs.)

2. Diluted (in Rs.)

Place: Vadodara

1. The above unaudited standalone & consolidated financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 11th February 2025. The figures for the guarter and nine months ended 31st December 2024 have been subjected to limited review by the statutory

4.42

5.70

2. The figures of the previous years have been regrouped and reclassified wherever necessary.

0.90

3. The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange (BSE) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results is available on the Stock Exchange website at www.bseindia.com & company's website at www.chemcrux.com. By the order of the Board

2.51

1.80

For CHEMCRUX ENTERPRISES LIMITED Mr. Girishkumar Shah (Whole Time Director)



0.77

Date: 11th February 2025



(DIN:00469291)

4.42

5.70

## SHARP INDIA LIMITED Registered Office: Gat No. 686/4. Koregoan Bhima, Taluka Shirur, Dist: Pune - 412216.

Phone No.: 02137 - 670000/01/02 Fax No.: 02137-252453 Email id: secretarial@sil.sharp-world.com Website: www.sharpindialimited.com CIN: L36759MH1985PLC036759

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2024

Sr. No.	Particulars	Three Months ended December 31, 2024	Three months ended September 30, 2024	Corresponding Three months ended December 31, 2023	Nine Months ended December 31, 2024	Corresponding Nine Months ended December 31, 2023	Year ended March,31, 2024
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	0.55	1.36	0.02	2.39	2.02	4.40
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, exceptional and/or extraordinary Items)	(508.57)	(478.67)	(462.61)	(1,471.58)	(1,300.45)	(1,785.32)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(508.57)	(478.67)	(462.61)	(1,471.58)	(1,300.45)	(1,785.32)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and /or extraordinary Items)	(508.57)	(478.67)	(462.61)	(1,471,58)	(1,300.45)	(1,785.32)
5	Total comprehensive income for the period {comprising profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income(after tax)}	(508.57)	(478.67)	(462.61)	(1,471.58)	(1,300.45)	(1,785.32)
6	Paid up equity Share Capital		317-5300-00-00-0		11.50	IIMINAAA SAAAA	
	(Face Value per share Rs.10/- each)	2,594.40	2,594.40	2,594.40	2,594.40	2,594.40	2,594.40
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of the previous year)	(13,946.61)	(13,456.88)	(12,059.10)	(13,946.61)	(12,059.10)	(12,527.37)
8	Earnings Per Share (of ₹ 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (Not annualized in respect of quarterly results)	108400 CO	0.20.20.20.20.20.20	7/4//7/25/452010/20	101/10000111111111111111111111111111111	100 (00 50 (10 t) 10 t)	30-239990 50190 3E
	1) Basic	(1.96)	(1.85)	(1.78)	(5.67)	(5.01)	(6.88)
	2) Diluted	(1.96)	(1.85)	(1.78)	(5.67)	(5.01)	(6.88)

Qualified conclusion for the Unaudited Financial Results expressed by Statutory Auditor on Financial Results.

We draw your attention to Note No. 4 to the Unaudited financial results which states that the Company has ceased business operations from the financial year ended March 31, 2016 and incurred Net Loss of Rs. 508.57 Lakhs for the guarter and of Rs. 1471.58 Lakhs for the nine months ended December 31, 2024 and accumulated losses aggregate to Rs. 16200.63 Lakhs as of December 31, 2024. There is no production of LED TVs from April, 2015 and of Air Conditioners since June, 2015 onwards in the absence of any orders. However, the management considers the going concern assumption as appropriate in view of certain service agreements with group companies and continued financial and operational support from holding company.

Significant time has been elapsed after cessation of the production activity and in the absence of Board approved business plan and scheme of revival, the impact on the financial results which have been

prepared by the management under going concern assumption, cannot be ascertained. Note: The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). The full format of the quarterly financial results are available on the Stock Exchange website- www.bseindia.com and website of the company

For Sharp India Limited

Makarand Date Managing Director DIN: 08363458

Place: Pune Date: February 11, 2025

code.



1. The above statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS) prescribed under section 133 of the Companies Act. 2013, as amended read with relevant rules thereunder and in terms of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended and SEBI Circular No. CIR/CFD/

2. The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on February 11.

2025. The Statutory auditors of the Company have carried out the limited review of the results for the guarter ended December 31,

4. The business of the Company falls under a single reportable primary segment i.e. "Reinforced Polypropylene" for the purpose of Ind

5. The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended on 31st

December 2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015. The full format of the said Financial Results are available on the Stock Exchange websites www.bseindia.com.

www.nseindia.com and on the Company's website www.kingfaindia.com. The same can be accessed by scanning below QR

For Kingfa Science & Technology (India) Limited **BO JINGEN Managing Director** DIN: 06617986

Date : February 11, 2025 financialexp.epapr.in\_

Place : Pune

www.sharpindialimited.com

New Delhi